

				Concerned Subject	60	C
6.	Ph.D. (Forestry)	PDFR	19	General Knowledge	20	A
				Statistics	20	B
				Concerned Subject	60	C
7.	Ph.D. Molecular Biology & Biotechnology	PDB	20	General Knowledge	20	A
				Statistics	20	B
				Concerned Subject	60	C
8	Ph.D. In Fisheries	PDF	21	General Knowledge	20	A
				Statistics	20	B
				Concerned Subject	60	C

नोट: यदि दो अथवा अधिक अभ्यर्थियों के पी0एच0डी0 पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हतांक समान होते हैं, तो प्रवेश परीक्षा में A,B,C प्रश्न समूह (Group of Questions) के आधार पर मेरिट लिस्ट के लिए वरीयता का क्रम $C > B > A$ रहेगा। अगर इनमें भी ऐसे अभ्यर्थियों के अर्हतांक समान होते हैं, तो जिस अभ्यर्थी की आयु सबसे कम होगी वह मेरिट लिस्ट में वरीयता प्राप्त करेगा।

IV.परीक्षा की तिथियां, समय एवं कालावधि

S.N.	Programme	Date of Exam	Time	Duration
1	स्नातक (Undergraduate)	30-05-2023	9.00 am to 12.00 pm	03 Hrs.
2	परास्नातक (Master's)	31-05-2023	9.00 am to 12.00 pm	03 Hrs.
3	पी-एच0डी0 (Ph.D.)	31-05-2023	9.00 am to 11.00 am	02 Hrs.
4	एम0बी0ए0 (MBA)	31-05-2023	3.00 pm to 5.00 pm	02 Hrs.

V.सिलेबस (Syllabus)

1. सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए:- सम्बंधित विषयों का यू0पी0 बोर्ड द्वारा निर्धारित इण्टर मीडिएट परीक्षा का सिलेबस।
2. सभी परास्नातक (मास्टर्स) पाठ्यक्रमों के लिए:- सम्बंधित विषयों का स्नातक पाठ्यक्रमों का सिलेबस।
3. सभी पी-एच0डी0 पाठ्यक्रमों के लिए:- सम्बंधित विषयों का परास्नातक पाठ्यक्रमों का सिलेबस।

Syllabus of Statistics as Common Subject for Ph.D. Programme:

Measures of central tendency and dispersion, Skewness and kurtosis, Probability, Normal distribution (properties only); Test of significance (t, Z, F and X^2 -test), Regression and correlation (including partial and multiple correlations with their test of significance), Sampling theory with reference to crop estimation survey (random, stratified and multistage sampling). Analysis of variance, Principles of experimental designs, Completely Randomized Design, Randomized Block Design, Latin Square Design, Factorial Experiments (2^3 factorial experiments), Split Plot design, Analysis of Covariance; Missing plot Technique (in R.B.D. and L.S.D. with one value missing)

VI. मूल्यांकन (Evaluation)

यू0पी0 कैंडेट 2023 के सभी प्रवेश परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु ऋणात्मक अंकन किया जायेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन (03) अंक आवंटित होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक (01) अंक कम किया जायेगा।